

सं. एम-12014/34/2016-17/एमडी
भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
विकास आयुक्त कार्यालय (हस्तशिल्प)

पश्चिमी खण्ड -7, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली-110066
दिनांक : सितंबर, 2017

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक
विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय
नई दिल्ली/ लखनऊ/कोलकाता/गुवाहाटी/मुंबई/चेन्नई।

विषय : दिल्ली हाट में दिनांक 1 से 15 दिसंबर, 2017 तक आयोजित होने वाले मास्टर क्रिएशन कार्यक्रम में भागीदारी के लिए कारीगरों का चयन।

महोदय/महोदया,

वर्ष 2017-18 के लिए घरेलू विपणन के अनुमोदित कार्य योजना (एक्शन प्लान) के अनुसार, दिल्ली हाट, आईएनए, नई दिल्ली में दिनांक 01/12/2017 से 15/12/2017 तक मास्टर क्रिएशन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) ने कारीगरों के चयन के लिए प्रक्रिया संप्रेषित की है, जो निम्न प्राथमिकता अनुसार है :-

1. शिल्प गुरु।
2. राष्ट्रीय पुरस्कृत/ राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाणपत्र धारक जिन्होंने मास्टर क्रिएशन 2016 तथा सूरजकुंड मेला 2017 में भाग नहीं लिया है।
3. यदि अभी भी रिक्तियाँ हैं, तो जीआई शिल्प के कारीगरों को नामित किया जा सकता है।
4. यदि अभी भी रिक्तियाँ हैं, तो उन्हें राज्य पुरस्कृतों (राज्य श्रेष्ठता प्रमाणपत्र धारक नहीं) से भरा जा सकता है जिन्होंने मास्टर क्रिएशन 2016 तथा सूरजकुंड मेला 2017 में भाग नहीं लिया है। किसी भी मामले में सामान्य श्रेणी के कारीगरों की सिफारिश नहीं की जाएगी।
5. एक राज्य से एक ही शिल्प में दो से अधिक कारीगरों की सिफारिश नहीं की जा सकती है।
6. कारीगरों का अंतिम चयन मुख्यालय कार्यालय द्वारा किया जाएगा।
7. उपर्युक्त 4 के तहत कारीगरों का चयन करते समय, संबंधित सहायक निदेशक उपर्युक्त क्रमांक 1, 2 एवं 3 के तहत कारीगरों की अनुपलब्धता के कारणों का उल्लेख करते हुए एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

...जारी....

तदनुसार, मास्टर क्रिएशन 2017 के लिए चयन किया जा सकता है। फील्ड यूनिटों में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30/09/2017 है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के लिए निम्नलिखित कोटा अनुमोदित किया गया है, जो निम्न ब्यौरे के अनुसार है :

क्षेत्र	मास्टर क्रिएशन कार्यक्रम 1-15 दिसंबर, 2017 का कोटा	प्रतीक्षा सूची
उत्तरी क्षेत्र	25	6
मध्य क्षेत्र	25	6
पूर्वी क्षेत्र	20	5
पश्चिमी क्षेत्र	25	5
दक्षिणी क्षेत्र	15	4
पूर्वोत्तर क्षेत्र	10	4
कुल :-	120	30

इसके उपरांत कारीगरों की समेकित सूची मुख्यालय कार्यालय को **दिनांक 10/10/2017 तक** भेजी जा सकती है। कारीगरों का अंतिम चयन मुख्यालय कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

यह विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(ए के मोहंती)
सहायक निदेशक (विपणन)

No.M-12014/34/2016-17/MD
Government of India
Ministry of Textiles
Office of Development Commissioner (Handicrafts)
Block No.7, R.K.Puram
New Delhi-110066
Dated: - 14. 09. 2017

To

The Regional Director
Office of DC(Handicrafts)
N.Delhi/Lucknow/Kolkata/Guwahati/Mumbai/Chennai

Sub: - Selection of artisans for participation in Master Creation Programme is to be held w.e.f. 1st to 15th December, 2017 at Dilli Haat.

Sir/Madam,

As per the approved Action Plan of Domestic Marketing for the year 2017-18, the Master Creation Programme at Dilli Haat, INA, New Delhi w.e.f. 01.12.2017 to 15.12.2017 is to be organized. In this connection, Development Commissioner(Handicrafts) has conveyed the procedure for selection of artisans, as per following priority: -

1. Shilp Guru.
2. The National Awardees/N.M.C. those who have not participated in Master Creation 2016 and Surajkund Mela 2017.
3. If there are still vacancies, the user artisans of GI Crafts may be nominated.
4. If there are still vacancies, the same may be filled from State Awardees (not State Merit Certificate holders) who have not participated in Master Creation 2016 and Surajkund Mela 2017. No case General category artisans may be recommended.
5. Not more than two artisans from the same craft of the State may be recommended.
6. The final selection of artisans will be done by the Headquarters Office.

Contd....

7. While selecting artisans under 4 above, concerned Asstt. Director must give a certificate mentioning the reasons for non-availability of artisans under 1, 2 & 3 above.

Accordingly, selection may be made for Master Creation 2017. The last date of receipt of applications is 30.9.2017 in the field units. The following quota has been approved for each Regional Office, as per details given below:

Region	Master Creation Prog. 1 st - 15 th December,2017 Quota	Waiting list
Northern Region	25	6
Central Region	25	6
Eastern Region	20	5
Western Region	25	5
Southern Region	15	4
North Eastern Region	10	4
Total :-	120	30

Thereafter a consolidated list of artisans may be sent to Headquarters Office latest by 10.10.2017. The final selection will be made by Headquarters Office.

This issues with the approval of Development Commissioner(Handicrafts).

Yours faithfully,

(A.K. Mohanty)
Assistant Director(Marketing)